

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 91]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 फरवरी 2014—फाल्गुन 1, शक 1935

खेल और युवा कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2014

क्र. एफ 2-52-2012-नौ.—मध्यप्रदेश शासन, राज्य में होनहार तथा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को वृत्तियाँ, देश का प्रतिनिधित्व करने वाले मध्यप्रदेश के अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार, खेल संस्थाओं को अनुदान, अधिकृत राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लेने हेतु खिलाड़ियों को प्रोत्साहन / आर्थिक सहायता संबंधी नियम जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 287, दिनांक 19 जून, 2009 से बनाए गए थे को निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है :—

(4.4.3) विश्व कप/चैम्पियनशिप.—क्रिकेट सहित मान्यता प्राप्त खेलों की सूची में सम्मिलित खेलों में निम्नानुसार पुरस्कार देय होगा :—

( सीनियर वर्ग में ) :

स्वर्ण पदक प्राप्त खिलाड़ी	—	रु. 6,00,000/-	(रु. छः लाख)
रजत पदक प्राप्त खिलाड़ी	—	रु. 4,00,000/-	(रु. चार लाख)
कांस्य पदक प्राप्त खिलाड़ी	—	रु. 2,00,000/-	(रु. दो लाख)

( जूनियर एवं सब जूनियर वर्ग में ) :

स्वर्ण पदक प्राप्त खिलाड़ी	—	रु. 4,00,000/-	(रु. चार लाख)
रजत पदक प्राप्त खिलाड़ी	—	रु. 2,00,000/-	(रु. दो लाख)
कांस्य पदक प्राप्त खिलाड़ी	—	रु. 1,00,000/-	(रु. एक लाख)

(4.4.4) राष्ट्र मण्डल खेल :

स्वर्ण पदक प्राप्त खिलाड़ी	—	रु. 4,00,000/-	(रु. चार लाख)
रजत पदक प्राप्त खिलाड़ी	—	रु. 3,00,000/-	(रु. तीन लाख)
कांस्य पदक प्राप्त खिलाड़ी	—	रु. 2,00,000/-	(रु. दो लाख)

(4.4.5) एफ्रो एशियन एवं सेफ गोम्स तथा अधिकृत एशियन एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं :—

क्रिकेट सहित मान्यता प्राप्त खेलों में अधिकृत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में निम्नानुसार पुरस्कार देय होगा :—

( सीनियर वर्ग में ) :

स्वर्ण पदक प्राप्त खिलाड़ी	—	रु. 2,00,000/- (रु. दो लाख)
रजत पदक प्राप्त खिलाड़ी	—	रु. 1,50,000/- (रु. एक लाख पचास हजार)
कांस्य पदक प्राप्त खिलाड़ी	—	रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख)

( जूनियर एवं सब जूनियर वर्ग में ) :

स्वर्ण पदक प्राप्त खिलाड़ी	—	रु. 1,50,000/- (रु. एक लाख पचास हजार)
रजत पदक प्राप्त खिलाड़ी	—	रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख)
कांस्य पदक प्राप्त खिलाड़ी	—	रु. 80,000/- (रु. अस्सी हजार)

(4.4.6) मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं :—

( सीनियर वर्ग में ) :

स्वर्ण पदक प्राप्त खिलाड़ी	—	रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख)
रजत पदक प्राप्त खिलाड़ी	—	रु. 60,000/- (रु. साठ हजार)
कांस्य पदक प्राप्त खिलाड़ी	—	रु. 40,000/- (रु. चालीस हजार)

( जूनियर वर्ग में ) :

स्वर्ण पदक प्राप्त खिलाड़ी	—	रु. 80,000/- (रु. अस्सी हजार)
रजत पदक प्राप्त खिलाड़ी	—	रु. 50,000/- (रु. पचास हजार)
कांस्य पदक प्राप्त खिलाड़ी	—	रु. 30,000/- (रु. तीस हजार)

उपरोक्त पुरस्कार सभी व्यक्तिगत एवं दलीय विधाओं में देय होगा.

**संशोधन**—शासन इन नियमों में संशोधन/ परिवर्तन/ शिथिलीकरण करने हेतु सक्षम रहेगा, उक्त संशोधन राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील माने जावेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**एम. मोहन राव**, प्रमुख सचिव.